



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 66 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2001/फाल्गुन 25, 1922

No. 66]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2001/PHALGUNA 25, 1922

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2001

दूरसंचार टैरिफ ( मानक पैकेज प्रदान करना ) अपेक्षा

सं. 301-9/2001-टी आर ए आई ( इकॉन ).—दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 7 व 9 के साथ पठित एवं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा 2 के अंतर्गत स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा आदेश देता है कि :—

1. सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा, समस्त ग्राहक पंजीकरण फार्मों/ग्राहक अनुबंध फार्मों में, तथा ऐसे सभी दस्तावेजों में जिनमें उपभोक्ताओं को टैरिफ का ब्यौरा दिया जाता है, निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाएंगे—

(क) सभी ग्राहकों को, 'ट्राई' (TRAI) द्वारा निर्धारित मानक पैकेज, उपभोग के लिए सदैव उपलब्ध है;

(ख) मानक पैकेज के साथ प्रस्तुत पूरक सेवाएं/मूल्यवर्धित सेवाएं ग्राहक की इच्छा पर उपलब्ध होंगी।

2. दूरसंचार टैरिफ (प्रकाशन एवं रिपोर्ट देना अपेक्षा पर, 'ट्राई' की 8 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना में बताई गई मर्दाने सहित, सेवा संबंधी शर्तों में, उपर्युक्त 1(क) व (ख) की जानकारी भी स्पष्ट रूपेण होगी।

3. प्रत्येक सेवा प्रदाता, संबंधित दस्तावेजों में उपरोक्त के अनुसार परिवर्तन कर लें और इसके प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, प्राधिकरण को इसके अनुपालन की रिपोर्ट भेज दें।

हरप वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[ सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/142/2000 ]

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2001

**Telecommunication Tariff (Offer of Standard Package) Requirement**

**No. 301-9/2001-TRAI (Econ).**—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section 2 of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 read with clauses 7 and 9 of the Telecommunication Tariff Order, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby directs :—

1. The following details shall be prominently indicated by all Telecom Service Providers in all Customer Registration Forms/Customer Agreement Forms and in other documents where details of tariff are made available to subscribers—

(a) that Standard Package prescribed by TRAI is always available for subscription to all customers;

(b) that Supplementary Services/Value Added Services offered with the Standard Package are optional.

2. The General Terms and Conditions for service, in addition to the items stated in the TRAI notification dated 8th April, 1999 on Telecommunications Tariff ( Publication and Reporting) Requirement, shall also prominently state as indicated in items 1(a) and (b) above.

3. Every Service Provider shall make changes as above in the relevant documents and report compliance to the Authority within thirty days of the date of this publication.

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Advisor

[No. ADVT -III/IV/Exty/142/2000]